



13th November, 2025

BSE Limited

P. J. Towers, Dalal Street, <u>Mumbai – 400001</u> The National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor, C-1, Block G, Bandra – Kurla Complex,

Bandra (E),

Mumbai - 400051

Scrip Code: 531082 Symbol: ALANKIT

Dear Sir/Ma'am,

Sub: SUBMISSION OF NEWSPAPER ADVERTISEMENT FOR PUBLICATION OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2025

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), read together with Part A of Schedule III thereto, please find enclosed herewith, a copy of the newspaper advertisement for publication of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2025, published by way of advertisements on 13th November, 2025 in:

- 1. Financial Express (English); and
- 2. Haribhoomi (Hindi).

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For ALANKIT LIMITED

SAKSHI THAPAR COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Enclosures: As stated above

FINANCIAL EXPRESS



INTEGRA CAPITAL LIMITED

(Formerly known as Integra Capital Management Limited)
CIN No. L74899DL1990PLC040042 | GST TIN-07AAACI0828F2ZX
Regd. Office: 32, Regal Building, Sansad Marg, New Delhi-110001

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30™ SEPTEMBER, 2025

		- BVD - BD - SO-ALA	(Amou	int In Rs. Lakhs)
S. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2025 (unaudited)	Quarter Ended 30.09.2024 (unaudited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	8.46	34.92	29.53
2	Net Profit From Ordinary Activities after Tax	6.97	23.15	-6.57
3	Net Profit for the Period after Tax (after Exceptional Items)	6.97	23.15	23.43
4	Paid up Equity Share Capital (Face Value per Share is Rs.10)	470.28	470.28	470.28
5	Reserves excluding Revaluation reserve	2	1,000	17.10
6	Earning Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each (Not Annualised)) (a) Basic and Diluted EPS (before exceptional items (In Rs.))	0.15	000,000	0.50 0.50
	(a) Basic and Diluted EPS (before exceptional items (In Rs.)) (b) Basic and Diluted EPS (After exceptional items (In Rs.))	0.15	0.49	107

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchange under regulation 33 of (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange Website, www.bse.india.com and on the company's

2. There is no qualification in the Unaudited Financial Results Report for the guarter and Half Year ended 30° September, 2025.

Place: New Delhi Dated: 12.11.2025

For Integra Capital Limited (Formerly known as Integra Capital Management Limited) Tarun Vohra Managing Director DIN No. 00030470

Description of secured asset(s)



ROHA HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED

Corporate Office: Unit No. 1117 & 1118, 11th Floor, World Trade Tower, Sector 16, Noida, Uttar Pradesh 201301.

Demand Notice

DEMAND NOTICE

Name of the Borrower(s)/Co-Borrower (s)/Loan A/c No./Branch

NOTICE TO BORROWER UNDER SECTION 13 (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.

NOTICE is hereby given that the following borrower/s who have availed loan from Roha Housing Finance Private Limited (RHFPL) have failed to pay Equated Monthly Installments (EMIs) of their loan to RHFPL and that their loan account has been classified as Non-performing Asset as per the guidelines issued by National Housing Bank. The borrower(s) have provided security of the immovable property/ies to RHFPL, the details of which are described herein below. The details of the loan and the amounts outstanding and payable by the borrower/s to RHFPL as on date are also indicated here below. The borrower(s) as well as the public in general are hereby informed that the undersigned being the Authorized Officer of RHFPL. the secured creditor has initiated action against the following borrower(s) under the provisions of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and enforcement of Security Interest Act, 2002 (the SARFAESI Act). If the following borrower(s) fail to repay the outstanding dues indicated against their names within 60 (Sixty) days of this notice, the undersigned will exercise any one or more of the powers conferred on the Secured Creditor under sub-section (4) of Section 13 of the SARFAESI Act, including power to take possession of the property/ies and sell the same. The public in general is advised not to deal with property/ies described here below.

NO	(7,	Date & Amount	(immovable property/les)						
1	LAN: LANODCLPRS000005016324 / Branch: Noida Cluster 1. ANIL KUMAR SO MANGERAM, 2. PUSHPA WO MANGERAM Both ADD 1: ADD1: (GOTHRA, PO, BAGHPAT, UTTAR PRADESH- 250611, INDIA) ADD2:(KHASRA NO 37 MIN KHATA NO. 00111, AREA ADM. 262 SQ. YDS., VILLAGE GOTRA, TEHSIL KHEKRA, BAGHPAT, UTTAR PRADESH- 250611 INDIA) Sr. No. 1 also at - (SHOP NUMBER 2&3 OPPOSITE PILLAR NUMBER-18, MAIN DELHI DEHRADUN HIGHWAY, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH- 201102, INDIA)	& Rs. 1552691 as on	All that part and parcel of the property bearing Property Address: (KHASRA NO 37 MIN KHATA NO. 00111, AREA ADM. 262 SQ. YDS., VILLAGE GOTRA, TEHSIL KHEKRA, BAGHPAT, UTTAR PRADESH- 250611 INDIA)						
2	LAN: HLJANASCMP000005012093 / Branch: Janakpuri 1. SHYAM LAL, 2. SANTOSH PAL Both ADD 1: (KHASRA NO. 419 / 03 GALI NO 10, BLOCK B GAGAN VIHAR,, S.B.D. GHAZIABAD UP, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH - 201005, INDIA) ADD 2: (RESIDENTIAL PLOT OF LAND AREA MEASURING 80 SQ. YDS.OUT OF KHASRA NO. 419/3 MINSITUATED IN GAGAN VIHAR COLONYVILLAGE-BRAHAMPUR ALIAS BHOPURAPARGANA - LONI TEHSIL AND DISTRICT-GHAZIABAD NEAR KRISHNA VATIKA 201205.GHAZIABAD UTTAR PRADESH- 201005 INDIA) Sr. No. 1 also at - (C-4 JAMNA VIHAR WARD 256, SHADARA NEW DELHI, DELHI, NEW DELHI- 110094, INDIA)	14-10-2025 & Rs.589799 as on 13.10.2025	All that part and parcel of the property bearing Property Address: (RESIDENTIAL PLOT OF LAND AREA MEASURING 80 SQ. YDS.OUT OF KHASRA NO. 419/3 MINSITUATED IN GAGAN VIHAR COLONYVILLAGE-BRAHAMPUR ALIAS BHOPURAPARGANA-LONI TEHSIL AND DISTRICT-GHAZIABAD NEAR KRISHNA VATIKA 201205. GHAZIABAD UTTAR PRADESH- 201005 INDIA)						
Dat	Date - 13.11.2025, Place - GHAZIABAD Authorized officer , Roha Housing Finance Private Limited								

RAJASTHAN CYLINDERS AND CONTAINERS LIMITED

Regd, Office: SP-825, Road No. 14, V K I Area, Jaipur-302013, TEL.: 91-141-4031771-2 E: info@bajoriagroup.in; W: www.bajoriagroup.in; CIN No: L28101RJ1980PLC002140

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FORTHE QUARTER AND HALFYEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2025 Quarter Corresponding HalfYear Corresponding Previous ended Quarter ended ended HalfYear ended Year ended

No.	Particulars	30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09,2024	31.03.2025
		(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Audited)
1	a) Revenue from operations		matile :	200	00000	no Elm	20.00
Viii	b) Other Income	21.91	22.06	24.98	43.97	47.73	91.60
	Total Income	21.91	22.06	24.98	43.97	47.73	91.60
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,	000000 CV	VYSDEVOOR		1538853507		VERNERAND
	Exceptional and/or Extraordinary items)	(43.46)	(39.00)	(52.24)	(80.46)	(74.65)	(147.46)
3	Net Profit / (Loss) for the period beforeTax	MAN A A A A A A A A A A A A A A A A A A	22-24-222				
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(41.46)	(39.00)	(52.24)	(80.46)	(74.65)	(147.46)
4	Net Profit / (Loss) for the period afterTax	300000000	Presentati		234003000111		3.304/202001
	(after, Exceptional and/or Extraordinary items)	WEATON TT	17900000000		200000000000000000000000000000000000000	11.700.0700.0700	were the con-
8	from continuing operation	(23.86)	(33.90)	(36.19)	(57.76)	(52.98)	(86.37)
5	Profit/(Loss) from discontinued operations	W. 72	50 S	(0.12)	55	(2.33)	(41.87)
6	Net Profit /(Loss) for the period/year from	200	612		22.6	verseave.	76000000000
200	Discontinued operation after tax	west an w	ounding.	11745 506	10.0762311	(1.66)	(24.53)
7	Profit/(Loss) for the Period	(23.86)	(33.90)	(36.19)	(57.76)	(54.64)	(110.90)
8	Total Comprehensive Income for the period						
	[Comprising Profit/(Loss) for the period (after	52505050	7722222	1722-032	30000077	719255-51085	0.0000000000000000000000000000000000000
	tax) & other comprehensive income (after tax)]	(21.90)	(31.94)	(35.96)	(53.84)	(54.19)	(103.07)
9	Equity Share Capital	336.16	336.16	336.16	336.16	336.16	336.16
10	Other Equity excluding revaluation						1007.00
	surplus as per balance sheet	- 68	3.0	(5)	- 05	5%	1007.26
111	Earning per Share of Rs. 10/- each						
	(Basic/Diluted) in Rs.						
	(for continuing and discontinued operations)	(0.74)	(1.01)	(1.08)	(1.72)	14 001	(2.20)
	a) Basic	(0.71)	(1.01)		(1.72)	(1.63)	(3.30)
	b) Diluted	(0.71)	(1.01)	(1.08)	(1.72)	(1.63)	(3.30)

(1) The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarterly and half-yearly Un-audited Financial Results is available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.bajoriagroup.in) and can be accessed by scanning below provided Quick Response code.

(2) The above standalone Un-audited financial results for the guarter and Half year ended 30th September, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved & taken on record by the Board of Directors at their meetings held on 12th November, 2025. (3) These Standalone Un- audited Financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.

(4) Figures for the previous period have been regrouped/ rearranged wherever necessary to conform to current year presentation.



For Rajasthan Cylinders and Containers Ltd Avinash Bajoria (Chairman cum Managing Director) DIN: 01402573

S.

INDIA LEASE DEVELOPMENT LIMITED

CIN: L74899DL1984PLC019218 GSTIN: 07AAACI0149R1ZB REGD. OFFICE: MGF HOUSE, 4/17-B, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002 PH.: 41520070 FAX: 41503479 Website: www.indialease.com, E-mail: info@indialease.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR

THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025 (₹ in Lakhs except EPS)

S No.	Particulars	For the quarter ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	Six Mont	Year to date figures for the financial year ended		
		30.09.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations (Net)	14.83	14,70	27.59	28.57	56.43	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Exceptional items and tax)	1.33	1.93	(4,19)	(3.76)	(11.72)	
3	Net Profit/(Loss) for the period (after exceptional items and before tax)	1.33	1.93	(4.19)	(3.76)	(11.72)	
4	Net profit / loss for the period after tax	1.33	1.93	(4.19)	(3.76)	(11.72)	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(34.47)	1.93	(39.99)	(3.76)	(56.02)	
6	Paid-up Equity Share Capital	1470.02	1470.02	1470.02	1470.02	1470.02	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous financial year	20	523		(32)	(423.49)	
8	Earning per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised) Basic	0.01	0.01	(0.03)	(0.03)	(0.08)	

Diluted

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone Quarterly/Half Yearly Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the standalone unaudited quarterly and half yearly financial results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and also at the Company's website www.indialease.com. By order of the Board of Directors

0.01

0.01

Place: New Delhi Date: November 12, 2025



(0.03)

(0.08)

DIN: 00022964

Clix Capital Services Private Limited CIN: U65929DL1994PTC116256

Extract of Standalone Financial Results for the Quarter ended 30 September 2025

Regd. Office: W2/14, First Floor, West Patel Nagar, New Delhi - 110008 Telephone: +91-120 6465400 I Website: www.clix.capital

		Quarter 6	Year ended		
S. No	Particulars	30-Sep-25	30-Sep-24	31-Mar-25	
		Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations	28,437	25,267	1,00,49	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,682	3,118	11,325	
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,682	3,118	11,325	
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,006	2,333	8,441	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	1,908	2,179	8,172	
6	Paid-up Equity Share Capital	1,52,953	1,52,953	1,52,953	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	91,473	84,091	88,425	
8	Securities Premium Account	22,950	22,950	22,950	
9	Net worth	2,44,426	2,37,044	2,41,378	
10	Paid-up Debt Capital/Outstanding Debt	4,80,603	4,22,943	4,51,644	
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	
12	Debt Equity Ratio	1.97	1.78	1.87	
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)*				
	Basic:	0.13	0.15	0.56	
	Diluted:	0.13	0.15	0.54	
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	N/	
15	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	N.A	
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	N/	
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	N/	

'Quarter ended Basic EPS and Diluted EPS are not annualised

Note 1: The above results for the Quarter ended 30 September 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 11 November 2025, in accordance with the requirement of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.

Note 2: The above is an extract of the detailed format of the Quarter ended results filed with the National Stock Exchange ('NSE') under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results are available on the website of National Stock Exchange – www.nseindia.com, and is also available on the Company's website – www.clix.capital. Note 3: For the items referred to in the sub-clauses of the Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange and can be accessed on www.nseindia.com

> For and on behalf of the Board of Directors **Clix Capital Services Private Limited**

Date: 11 November 2025

Place: Gurugram

Rakesh Kaul Whole-time Director

(INR In lacs)

CAN FIN HOMES LTD

DDA Building, 1st Floor, Near Paras Cinema. Can Fin Homes Ltd Nehru Place, New Delhi-110019 Sponsor CANARA BANK) Ph.: 011-26435815, 2643023, 7625079108, 9891944721

Email: delhi@canfinhomes.com CIN: L85110KA1987PLC008699

APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 9(1)] Sale notice for sale of immovable properties E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

read with proviso to Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. NOTICE is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd., Nehru Place, New Delhi, Branch, will be sold by holding e-auction on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 03/12/2025 for recovery of Rs. 32,44,894/- (Rupees Thirty Two Lakh Forty Four Thousand Eight Hundred Ninety Four Only) due to Can Fin Homes Ltd. from 1. Mr. Kulbhushan Sharma S/o Mukesh Chand Sharma 2. Mr. Mukesh Chand Sharma S/o Rameshwar Prasad Sharma (Borrowers) and 1. Mr. Kapil Dhawaj Singh S/o Roop Narayan Singh 2. Mr. Sachin Sharma S/o Mukesh Chand Sharma (Guarantors), as on 12/11/2025, together with further interest and other charges thereon. The reserve price will be Rs. 14,50,000/- (Rupees Fourteen Lakh Fifty Thousand Only) and the earnest money deposit will be Rs.1,45,000/- (Rupees One Lakh Forty Five Thousand Only). **Description of the property**

Flat No-GF-4, Ground Floor, Plot No-MM-72A, DLF Ankur Vihar, Loni, Ghaziabad-201102. (Admeasuring 65.03 Sq mtrs. approx) Boundaries: North: Passage then Flat No-GF-1, South: Others

East: Flat No-GF-3, West: Plot No-MM-73 Encumbrances, if any: NIL

Link for participating in e-auction: www.bankeauctionwizard.com

The detailed terms and conditions of the sale are provided in the official website of Can Fin Homes Ltd., (https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx).

Date: 12.11.2025 **Authorized Officer. Can Fin Homes Ltd. Place: New Delhi**

RELIGARE HOUSING DEVELOPMENT RELIGARE | 11820 FINANCE CORPORATION LTD. Regd. Office: 1407, 14th floor, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi 110019
Corporate Office: 8th floor, Max House, Block A. Dr. Jha Marg, Okhla Phase 3, Okhla Industrial Estate, New Delhi 110020, CIN No: U74899DL1993PLC054259, Website: www.religarehomeloans.com

POSSESSION NOTICE ((Appendix IV) Rule 8(1)) Whereas the undersigned being the Authorized officer of Religare Housing Development Finance

Corporation Limited (RHDFCL), a Housing Finance Company registered with National Housing Bank (fully owned by Reserve Bank of India) under the provision of the Securitisation and Reconstruction o inancial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 OF 2002) (hereinafter referred to as "RHDFCL") and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security nterest (Enforcement) Rule, 2002 issued a Demand Notice dated 13.06.2025 calling upon 1, MR VINCENT AROGYA S/O SILVA AROGYA NADHAN R/O H.NO. 247, SADARPUR SECTOR-45, GAUTAM BUDDHA NAGAR NOIDA, LANDMARK- SECTOR 45. NOIDA, UTTAR PRADESH-201301 ALSO AT ALPHABET TECH PVT. LTD 512. 5TH FLOOR SILVER TOWER SECTOR-18 METRO MOIDA UTTAF PRADESH-201301 ALSO AT: KHASRA NO.184, VILLAGE SADARPUR, DADRI GAUTAM BUDHHA NAGAR NOIDA UTTAR PRADESH-201301 2. MRS.GRACEY W/O S.N NADHAN R/O H.NO. 247 SADARPUR SECTOR-45, GAUTAM BUDDHA NAGAR NOIDA, LANDMARK- SECTOR 45, NOIDA, UTTAR PRADESH-201301 3. SILVA AROGYA NADHAN S/O SILVA R/O H.NO. 247, SADARPUR SECTOR-45 GAUTAM BUDDHA NAGAR NOIDA, LANDMARK- SECTOR 45, NOIDA, UTTAR PRADESH-201301 ("Th Borrower") & (The Co-Borrower) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 7,95,240.97/-(Rupees Seven Lakh Ninety: Six Thousand Two Hundred Forty And Ninety Seven Paisa Only) along with nterest from 21.05.2025 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security nterest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 11th day of November, 2025. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and

any dealings with the property will be subject to the charge of "RHDFCL" for an amount of Rs. 7,96,240.97/- (Rupees Seven Lakh Ninety Six Thousand Two Hundred Forty And Ninety Seven Paisa Only) and interest and other charges thereon from 21.05.2025 clears the dues of the "RHDFCL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "RHDFCL and no further step shall be taken by "RHDFCL" for transfer or sale of the secured assets

PROPERTY & WEST-PLOT HARINIWAS. Place: GAUTAM BUDH NAGAR

M/s Religare Housing Development Finance Corporation Ltd Date: 13/11/2025

ALANKIT LIMITED CIN: L74900DL1989PLC036860

Regd. Office: 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE 2nd QUARTER ENDED 30.09,2025

				Consolidated					Standalone		
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Half Year Ended	Half Year Ended	Year Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Half Year Ended	Half Year Ended	Year Ended
		30.09.2025 Unaudited	30.09.2024 Unaudited	30.09.2025 Unaudited	30.09.2024 Unaudited	31.03.2025 Audited	30.09.2025 Unaudited	30.09.2024 Unaudited	30.09.2025 Unaudited	30.09.2024 Unaudited	31.03.2025 Audited
1	Total Income from Operations	8,567.63	6,819.91	19,338.18	13,323.25	31,940.95	1,903.27	2,531.42	4,625.84	5,481.96	11,262.12
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items)	485.42	615.31	1,338.04	1,471.86	3,686.94	305.34	250.38	662.18	762.36	2,270.50
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	485.42	615.31	1,338.04	1,471.86	3,094.68	305.34	250.38	662.18	762.36	1,678.24
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax	448.94	366.94	1,045.07	1,120.06	2,167.01	305.16	171.67	539.88	534.66	1,163.76
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	464.78	378.24	1,076.75	1,142.66	2,230.38	319.57	183.22	568.69	557.76	1,221.39
6	Equity Share capital	2,711.58	2,711.58	2,711.58	2,711.58	2,711.58	2,711.58	2,711.58	2,711.58	2,711.58	2,711.58
7	Reserves (excluding Revaluation reserves as per Balance Sheet of previous accounting year)	_	_	_	_	26,960.35	_	_	_	_	29,060.16
8	Earning per Share (of Re. 1/- each)(not annualised)	-				-	-	-			-
	1. Basic	0.16	0.12	0.35	0.39	0.73	0.11	0.07	0.20	0.20	0.43
	2. Diluted	0.16	0.12	0.35	0.39	0.73	0.11	0.07	0.20	0.20	0.43
NOT											

- . The above unaudited financial results for the guarter and year ended 30th Day of September, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and on its recommendation have been approved by the Board of Directors at its meeting held on 12th Day of November, 2025 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the
- Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the Company's website www.alankit.in. 3. The above results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting
- practices and policies to the extent applicable For ALANKIT LIMITED



ANKITAGARWAL

MANAGING DIRECTOR

(Rs. In Lacs except EPS)

Place: New Delhi

Date: 12.11.2025

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited Corporate Office: "CHOLA CREST "C 54 & 55, Super B – 4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai -600032, India. Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005



Contact No: Mr. Srinivas V, Mob.No. 9643344410 **E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES**

E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower / Co-Borrower/ Mortgagor (s) that the below described immovable

properties mortgaged to the Secured Creditor, the Physical/symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of Cholamandalam Investment and Finance Company Limited the same shall be referred herein after as Cholamandalam investment and Finance Company Limited. The Secured Assets will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis through E-Auction. It is hereby informed to General public that we are going to conduct public E-Auction through website https://chola-lap.procure247.com/

S.	Account No. and Name of borrower, co- borrower, Mortgagors	as per Demand Notice U/s 13(2)	nroperty / Properties	Money Deposit & Bid Increment	Time, EMD Submission Last Date
1	Loan Account Nos. X0HEELD00001615562		BUILT UP PROPERTY AREA MEASURING 50	Amount (In Rs.)	Inspection Date
	& HE02ELD00000004562 1.JEETU KUMAR (APPLICANT) H.NO. K-66, GALI NO-2, GOUTAM VIHAR,	Rs. 30,46,236/-	SQ.YDS. I.E. 41.81 SQ.METERS, BEARING PROPERTY NO. K-66, OUT OF KHASRA NO.	Rs.48,00,000/- Rs. 4,80,000/-	10.12.2025 at 11.00 a.m to 1:00 p.m
	GONDA, BHAJANPURA, DELHI-110053 2.JEETU KUMAR (APPLICANT)	NDA, BHAJANPURA, DELHI-110053 Symbolic GROUND FLOOR AND ONE	GROUND FLOOR AND ONE ROOM SET ON	Rs.50,000/-	09.12.2025 , 10.00 am to 5.00p.m
l	L-1156, GALI NO 8, GAUTAM VIHAR, DELHI-110053		FIRST FLOOR, WITH THE RIGHTS OF USE A THE LAST STOREY,	ND CONSTRUCT UPTO	As per appointment

3.M/S SHAHEED BHAGAT SINGH INSTITUTE -VIHAR, HARKESH NAGAR, GHONDA, ILLAQA SHAHDARA, DELHI-110053, WHICH IS BOUNDED AS **REP BY ITS PROP, JEETU KUMAR(CO-APPLICANT)** UNDER- EAST- PROPERTY OF OTHER, WEST- PROPERTY OF OTHER, NORTH- ROAD 15 FT WIDE, L-1156, GALI NO 8, GAUTAM VIHAR, DELHI-110053 SOUTH-PROPERTY OF OTHER **4.GUDDI CHAUHAN (CO-APPLICANT)** H.NO. K-66, GALI NO-2, GOUTAM VIHAR, GONDA, BHAJANPURA, DELHI-110053

5.AJEET SINGH CHAUHAN(CO-APPLICANT) H.NO. K-66, GALI NO-2, GOUTAM VIHAR, GONDA, BHAJANPURA, DELHI-110053

6.AMIT SINGH CHAUHAN(CO-APPLICANT) H.NO. K-66, GALI NO-2, GOUTAM VIHAR, GONDA, BHAJANPURA, DELHI-110053 7.PREM SINGH CHAUHAN(CO-APPLICANT) H.NO. K-66, GALI NO-2, GOUTAM VIHAR, GONDA, BHAJANPURA, DELHI-110053

2. For further details on terms and conditions please visit https://chola-lap.procure247.com/ & https://www.cholamandalam.com/auction-notices to

take part in e-auction.

THIS IS ALSO A STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 9(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES,2002

epaper.financialexpress.com

PlaceDELHI/NCR Date: 06-11-2025

New Delhi

SITUATED AT VILLAGE GHONDA GUJRAN KHADAR, IN THE ABADI OF K BLOCK, GALI NO 2, GAUTAM

1. ion-notices. For details, help, procedure and online training on e-auction, prospective bidders may contact (Muhammed Rahees – 81240 00030), Ms.Procure247, (Contact Person: Vasu Patel: 9510974587)

Sd/- Authorised Officer Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

एफएसएल घटनास्थल से ४० नमुने एकत्र किए

डॉ. मुजिम्मल और उमर ने लालिकला क्षेत्र की कई बार की थी रेकी

हरिभूति न्यूज 📦 नई दिल्ली

आतंकी मॉड्यूल के संबंध मे गिरफ्तार किए गए डॉ. मुजम्मिल गनई के मोबाइल फोन के डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि उसने इस साल जनवरी में लाल किला क्षेत्र की कई बार रेकी की विश्व क्षेत्र की कई बार (की की थी। उसके साथ डॉ उमर भी दोह लोने जाता था। पुलिस ने बताया कि उन्हें संदेह है कि ये रेकी 26 जनवरी को ऐतिहासिक स्मारक को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थीं, जो उस समय क्षेत्र में गहन गश्त के कारण विफल हो गई होगी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि डॉ. मुजम्मिल के मोबाइल फोन से ग्राप्त 'डंप डेटा' के विश्लेषण से पता चला है कि जनवरी के पत्रले सप्तार में लाल किला क्षेत्र न्द्रश्त सपाह म शालाकरला क्षेत्र में और उसके आसपास उसकी बार बार उपस्थिति थी। मुजम्मिल ने अपने साथी डॉ. मुजम्मिल ने अपने साथी डॉ. उपर नबी के साथ सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ की प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए लाल किले का दौरा कई बार किया था। टावर लोकेशन हाटा और आसपास के इलाकों से एकत्र किए गए सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी गतिविधियों की



विस्फोट स्थल से करीब ४० नमूने एकत्र किसे गये

पुलित तुन्नों ने बुधानर को बताय कि दिन्होंट स्थान से किरिक्तिक विद्वार प्रवेतभावता (स्फारसाल) हुएत करेंच भ तमूहें हुक्ता किये हैं। प्रविक्राल दिस्तेत्रभाव ने पात्र बन्दा है कि दिराजिस में ने एक नहाना असीवारम बाइट्रेट प्रतीत होता है। वो कारचून, होता बरूद तथा वो असरक-असन प्रकट के विस्क्रोटकों के बाहुई भी इन्हों शामिल है। बुन्दर दिस्क्रोटक बाहुबा अमीवारम बाइटेट से आयाद विशेतिक जात्र के बाद होती।

बडे स्तर पर चलाया जा रहा तलाशी अभियान

वहीं बिल्ली पुलिस विस्फोट के बाब राष्ट्रीय राजधानों में बड़े पैमाने पर तलाशों अभियान वला रही है। बिल्ली के समी प्रवेश और निकास द्वारों पर तामार्थ अन्यवाद्या दाला कर तथा । शास्त्रण कर अंबा प्रकार आर्थ प्रतासिक्क होता है। कही , वार्वमिक्क कर्ता कर मान्य कर बादी अंब्या में पुरित्तमकर हैं कि तता है। कही , मुख्या काराज्य के तहात बहुन में अमने आसे वार्त वाहमां कर तहात काराई ही । कार की है बहित्तम पुरित्त अधिकरने कि विकास कर के लिए हिस्स है। और कहरपुर स्वित अंकारपार्जीय सीकाओं पर सुरक्षा जाय की विकासने कर रहे हैं। बाजसों, में हो स्टेशक स्टेस्ट्रा होंगे होंगे कर आहे पर वाहमी की । काराई हो काराई है की कार इसी होंगे कारा कर के कि उन्हें में स्टेक्ट नविभिन्ने कर्ज़रें से बच क प्रथ। इक चरिष्ठ पुलिस अधिकारों ने बताया कि रक्षी ज़िला इकाइयाँ और विशेष शास्त्रओं की सतर्क राखें और सैडमांड वाले विकर पर्यटन स्थली. मॉल और धॉमेंक स्थलों के पान गर्भ बदाने का निर्देश दिया नाया है। अधिकारी ने बताया कि हम कोई ओरिक्स नहीं उठावा चारते। हमारा ध्यान जनता का विश्वास हनाए रखने और वह सुविश्चित करने पर है कि शहर सुरक्षित रहे। संवेदक्शील जगहाँ पर खेजी कत्ते, मेटल डिटेक्टर और बंग-रोधी टीमें वैनत हैं।

विस्फोट को रिकॉर्ड करने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया

शाल विरफाट को रिकॉर्ड करने वाला एक खेलीटीवी फुर अए एक कैमरें में वह वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। इसमें वि सड़क पर माने बातवाद को आतात्माड़े दिनाई वंते हैं और फिर अतानक एक अंबर्ग किनकेंट होता है। संभावाद शास करोब छाड़ बातकर ५० शिनंद पर हुआ थड़ विस्कोंट एक लाल गुरूबर के फटने जीना विस्वयों बिया जिस्सेंग तुरना बाब आफरातफरें और बहशत फैल गयों तथा लोग लिपने के लिए इधर उपर भागने लगे। इस संनोटीबी फुटैंज से धमांके के समय की पुष्टि की है जिसके बारे में पहले ही जांककताओं ने बताया था। माना जा रहा है कि माड़ी को डॉ. उमर नबी चला रहा था जो हरियाणा के फरीदाबाद में रिशत अल-फलाइ विश्वविद्यालय में सहायक

संदिग्ध लाल रंग की ईको स्पोर्ट्स कार फरीदाबाद से हुई बरामद

प्रशितां कि हुई बराजंद्र कार का प्रकार के हिस्ती जाता किया का स्वार का का को खोई इसी क्या कार का प्रकार के हिस्ती जाता किया का स्वार का माने में मुझे होने का महेर हैं। पूजित में इस कार को फरीबामां में रिकार किया है। इस कार को बराजवां के लिये पुलित में उपकारों के सामें बनो चीठायों और मोमार्थी मानो को अलारों कर शिया बा इसके का हो आईठ कार के डीलर को मी हिस्ता और जिया मार्थ है। दिल्ली पुलित में उपेशल सेन में लिया के आईपी का नाम अनित कोंग्रित कों को का कर डीलर में किरमान में शिया है। आधी का नाम अनित मोग्रित को का कर डीलर में किरमान में शिया है। आधी का नाम अनित मोग्रित कों का किया है। पुलित मुझे के अनुमार चीया कार पाना का मार्थित मोग्रित को किरोजवां में भारत को किरपोर्ट में इस्टेमान को वा को वाली हुएई अवंदर कार को बिचा में महत्व की थी। अनित से पूरावार कर यह पाना मांग्रिय का रहत है तो आंग्रित काई बिचारों में सम्बंद की थी। अनित से पूरावार कर यह पाना मांग्रिय का रहत है तो आंग्रित काई बिचारों के सम्बंद को स्वार है। इसके सम्बंद मांग्रित के किरोजवां में महत्व की थी। अनित से पूरावार कर बेत पहुंचा का को स्वार है। इस बेद के भी पाल लाववा का रहत है कि अनित के मोग्रित में सर है। इसके सम से इसने के से बीठारी में में में कुछ में बाबान रही है। माना जा रहत है कि इसने के से बीठारी में में से कुछ में बाबान रही है। माना जा रहत है कि इसित में के प्रतिविधी में में बीठ कुछ में बाबान रही है। माना जा रहत है कि इसित मार्थ की ही सर सम्बन्ध कार का प्रार का यह किया है। कार उमर के नाम पर है रजिस्टर्ड

क्यों ने पत जन कि निस्पोर के निर्माण कि निमाण है है शामिर इ नुमें ने पत जन कि निस्पोर के स्विकारों के प्रसार कर नार ने को की स्पोर्ट्स कर में भी कर का पता नामने के लिए बिल्ली पुनिस को कम से कम प्राप्त की मोना को मोना को मोना कर कि निस्पाण की से स्वस्था पर की निस्पाण पुनिस को भी काई नामित महरू की प्रसार को में स्वस्था पर प्रसार की में लिए अलाई कर हैं हम स्वाप्त का मोना की मोना पर प्रसार के सिक्पाल को माना की सिरकोट मामले के मुख्य सिक्पा की अंगल कि स्वाप्त को में की सिंप कर मा यूनी की का वार्किक प्रसार मामी मोना कि स्वाप्त को में मोना का यूनी के स्वाप्त को की का

यादव ने गृहमंत्री शाह से मांगा इस्तीफा

मई बिल्ली। लाल किला के पास हुए धमाकें को लेकर बिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देतेद यादत ने केंद्रीर न्हर्मजे अभित शाह से तुरंत इस्तीफा संगा है। यादव ने अरोप लगते हुए कहा कि बिल्ली और देश में सुरक्ष व्यवस्था फेल खेन की जिल्लोबारी गुरुमत्री असित शह को बनते हैं, उन्हें आगे आकर इसे स्वीकार करते हुए एवं त्यांग बेंगा वाहिए। उन्होंने कहा कि लाल किले के मजदीक हुए अब तक के बड़े धमाके की जानकारी पर केन्द्र समाक का जानकार। पर कन्द सरकार का जान तक कियों परिणमा तक न पहुंच पान, देश में सुरक्षा व्यवस्था और लोगों को सुरक्ष पर बड़ा स्ववाल खड़ा करता है। में यद दिलाना चहता हूं कि मुम्बद्ध विस्फोट की घटना के बाद विस्फाट का घटना के बाद मुखा पूरा को नेतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस स्टकार के गुरुमंत्री शिवराज पाटिल ने 30 नवम्बर 208 को पद ने इस्तीफा दे दिया था।

अमर कटारिया के परिजनों से मिले सचदेवा



अगर COCINCIL ON LICENSITIC IN CITY CALCULATION of Revent In an activate of the visual करेंग्रेस राजधार की में श्रीवाराज्य की रोग अगर के दिन पूर्व दिल्ली में हुए प्रकार को भीनिवाराज्यों जा कर वे दिन पूर्व दिल्ली में हुए प्रकार के भीनिवाराज्यों जा कर वे दिन पूर्व दिल्ली में राजधार कर कि कि तर अपने की स्थान प्रकार की जी के स्थान कर कि दिल्ली मुक्ति की उन्हों के स्थान प्रकार की प्रकार की उन्हों के स्थान के कि प्रकार की स्थान कर रही है और हर जूरत में भारत करकार इस धामके के मांताक कर रही है और हर जूरत में भारत करकार इस धामके के मांताक कर मांता के में अगर कर की कि प्रकार की स्थान के प्रकार के स्थान के स्थान कर साथ है जी की उन्हों के स्थान के स्थान के स्थान करता है कर की कि प्रकार के स्थान करता है कर साथ कर साथ के साथ में स्थान करता है कर स्थान करता है करने के साथ मुख्य साथ कर साथ के साथ मुख्य की साथ की साथ की साथ साथ हुए है।

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 BNSS देखिए

कारा अन अगर छाउँ हिंदि मेरे बसस परिवार किया गया है कि अमितृक्त भीसभी घरणी शोधाल निवासी कॉर्नेट संच्छ, स्ट्रीट, बार्ड नंपर १३. कंपर शर्बा, पुलिस चौकी के पास, बोधाला पेठ, विध्वनानम्, जिला पुनात कर्यकर्ष नया आगर, राजस्थान और शब्दा नंदर १३. — केला, चेथे कंडियोंगी, विश्व विश्वार, प्रधान नगर राशियाली विश्वती ने मित्र Mo.118/2025/US 305(A)3331(4)3(5)3317(2)IPC, बार्चार्य अमा वस्तर स्थापार, दिल्ली के छोटी वस्त्रवीच करवार किया है। संदेश है कि प्रचले किया हैं, और उस पर जाती किया पर गिरम्लकों के बार को कह

मंद्र हैं (यह जंबा बायर के तालत से बचन के लंब अपने आजा जाजा होता हो। करत: इनके द्वार परपामिणा की ताती है कि FR No.118/2025 U/S 306(AN/331(4)/36/5/37/2) IPC, अन्तर्मत बमना सरद साजार, दिल्ली के उचत अभियुक्त सीसगी है अभेशा की जाती है कि बढ़ इस न्यायालय से सम्प्रत मेरे हमानु ज़ब्द परिवाद का समर देने के लिए दिनांक 23.12.2025 की या हकते

अवसानुसार जो गौरव गौयल प्यायिक पण्डाधिकारी प्रकम श्रेणी-छ (केंद्रीय) केंद्रीय जिला, कमरा संख्या 247 शींच हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/14922/N/2025(Court Matter)

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

खारा 82 Cr.P.C. /84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 देखिए भेरे लाक परिवाद किया गया है कि अभियुक्त जावेद अडमद, पुत्र रहिवा और जाव परिवाद किया गया है कि अभियुक्त जावेद अडमद, पुत्र रहिवा तर्म एकते हों, जावेदावाद, हरियाण ने C.C. No. 777/18 US 138 NIACT, आना मध्यपुर, किया है। या रहिवा के अधीन दक्षणी अपराध्य हिवा है। या रहिव के कि उत्तर करनी अपराध्य किया है। आप रहिवा कि उत्तर किया है। अगेद उत्तर पर जावी किए एए पिरवातों के वारण्ट को यह विका कर कीटा दिया गया है कि उत्तर कीटा दिया गया है कि उत्तर कीटा दिया गया है कि उत्तर अधिक है और मुझे साध्याप्यद रूप में वर्षित कर दिया गया है कि उत्तर अधिक है अपने व्यक्ति का का प्रतिकृत कीटा किए जाने आप को प्रिया रहा है। इसलिए इसके हारण उद्योगाणा की जाती है कि C.C. No. 777/18 US 138 NIACT, स्वाना स्वप्यपुर, दिस्ती हो के G.C. No. 777/18 US 138 NIACT, स्वाना स्वप्यपुर, दिस्ती हो उत्तर अभियुक्त जावेद अधानय से अधीवा जो जाती है कि वह इस न्यायादम के समा (या मेर समान) उत्तर परिवाद का जाता है कि वह इस न्यायादम के समा (या मेर समान) उत्तर परिवाद का जाता है के वह इस न्यायादम के समा (या मेर समान) उत्तर परिवाद का जाता है के वह इस न्यायादम के समा (या मेर समान) उत्तर परिवाद का जाता है के वह इस न्यायादम के समा (या मेर समान) उत्तर परिवाद का जाता है के वह इस न्यायादम के समा (या मेर समान) उत्तर परिवाद का जाता है के वह इस न्यायादम के समा (या मेर समान) उत्तर परिवाद का जाता है कि वह समान कीटा कीटा कीटा है कीटा है कीटा है है कीटा है है कीटा है स्वाद कीटा कीटा है कीटा है सार वह कीटा है कीटा है सार वह कीटा है सार वह कीटा है सार वह कीटा है कीटा है सार वह कीटा है घारा 82 Cr.P.C. /84 मारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 देखिए

न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-का कमरा नं. 73, कड़कड़दूना कोर्ट, दिल्ली

१५ करोड की हेरोडन के साथ क्राइम ब्रांच ने दो दबोचे

हरिभूमि न्यूग भभ नई दिल्ली

क्राइम ब्रांच की एएनटीएफ टीम ने हुग सिंडिकेट को बड़ा झटका दिया है। 15 करोड़ मृल्य की लगभग 3 किलोग्राम हेरोइन जब्त करते हुये दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। उधर रोहिणी पुलिस ने भी एक करोड़ 10 लाख कींमत की हेरोडन जब्त की है।

पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की एएनटीएफ टीम ने छत्रपति का एरनटार्य टाम न अत्रयात शिवाजी पार्क, आउटर रिंग रोड, बसई दारापुर के पास से रंजीत मेहरा उर्फ कन्न् (27) और संजना (26) को गिरफ्तार किया। कन्न् के कृष्णे से 2.785 किलोग्राम हेरोइन और संजना के पास से 207 ग्राम जार तजाना था पास स 207 प्राम हेरोइन बरामद की गई। इंग्स के परिवहन में प्रयुक्त दो स्कूटी भी जब्त की गई है। रंजीत मेहरा उर्फ निवासी है। 10वीं कक्षा तक पड़ाई करने के बाद वह पहले एक होटा-मोटा व्यवसाय करता था. लेकिन



 रोहिणी पुलिस ने भी एक करोड़ से ज्यादा की हेरोइन पकड़ी

आर्थिक तंगी के कारण उसने आधिक तथा के कारण उसन मादक पदाओं की तस्करी शुरू कर दी। वह आदर्श उर्फ गडू नामक एक आपूर्तिकर्ता से हेरोइन खरीदता था और स्थानीय वितरकों को इसकी सण्लाई देता था। शाहादरा के कस्तूरवा नगर निवासी संजना ने सातवीं कक्षा तक पढ़ाई की है। आर्थिक तंगी से जूझते हुए उसने रंजीत के साथ मिलकर नशीले पदार्थों का धंधा शुरू किया था। वह अपने परिचितों को सक्रिय रूप से इन्स की आपूर्ति कर रही

रोहिणी से 1.10 करोड़ की हेरोड़न जब्त

रीडिणी जिले की घटी-नरकोटिक्स सेल ने एक महिला डून तस्कर को जिरफ्तर किया है। इसके पास से 266 वाम हेरोइन बरामव हुई। इसकी ानरपोर प्रध्य है। इन्तम पान ने शहे का में है। इन सिहम हुन इन्तम है। इन सहस्त्रिय काम में में बीद हो। का होने हमाने जोती में है। इन सहिना को शाशान पार वाली लेड, मेर विद्यार, मुक्तरकापुर डबास, बिल्ली से प्रकाश नथा। इस सब्बर में कंक्रप्रवास बाने में करा बंद बिजा तथा है। पुलिस आरोपी महिला से पुलिस कर हुन्य के सीन और अग्रुपि तैटवर्त के संबंध में आते की जीव कर रही है।

एलजी को सौंपी पुलिस शिकायत प्राधिकरण दिल्ली

की वर्ष 2024-25 की छटी वार्षिक रिपोर्ट को विध 2024-25 की छीती वीषिक रिपार्ट कई दिल्ली। पुलिस शिकायत प्रीधिकरण (पीसीए) ने बुध्यार को राज निवास मुद्देवक पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पीसीए) रिल्ली को वर्ष 2024-25 की छुटी वार्षिक रिपोर्ट उपराज्यापल विनय कुमार सक्सेना को सौंची इस अनुसर पर एलजी ने कहा कि यह जानकर प्रसत्नता की रही है कि वर्ष के दौरान, पीसीए ने 1,645 शिकायतों का निपदरा किया। जो पिछली वर्ष की 649 शिकायतों की शुल्ला में उल्लेखनीय जुढि हो निपदान प्रतिशत भी पिछले वर्ष के 54,44 प्रतिशत से बहुकर नुष्टि के स्वार्थ प्रश्निक्श की गया है। उन्होंने कहा कि पीसीए की यह बड़ी हुई प्रभावशीलता न केवल बेहतर आंतरिक दक्षता को दर्शांती है। बल्कि, प्राधिकरण में जनता के बढ़ते विश्वास और न्याब एवं जवाबदेटी के प्रति उसको प्रतिबद्धता को भी दशांती है। एलजी ने कहा कि मैंने प्राधिकरण से शिकायतों के त्वरित, परेशानी मुक्त और समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगियर्थे -संचालित प्रणाईलयों को ानपटान पुंताबाद करन के लिए प्राचायन स्पंचालात प्रणाहात्वाय कर अपनानं को भे अब्राह किया। जिससे यह प्रक्रिया नागरिकों के लिए और अधिक सुविधाजनक हो सके। एलजी ने इस अबसर पर प्राधिकरण के आध्यास, सदस्यों और कर्मचारियों की सुशासन और संस्थाओं में जनाता के विश्वास को प्रज्युत करने के प्रति उनके निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए शुभकामनाएं दी

सीटीआई ने गृहमंत्री शाह को पत्र लिख उठाया लाल

किला और चांदेनी चौक में अवैध कब्जा का मुद्दा

हिन्दुस्तान टिन वर्क्स लिमिटेड पैजी. कार्यालय : 426, डीएलएफ टायर ए. जसीला, नई दिल्ली-110025 www.hindustantin.biz

Contact No.: 011-49998888. Fax: 011-49998822

पर्यावरणानुकूल भविष्य बनाते हुए

SCRIP CODE: 530315

30 सितस्वर 2025 को समाप्त तिमात्री और छह मात्र हेत अअंक्रेसित विनीय परिणामों का सार

30,09,2025 प्रचारना स कुल अंदर अवधि हैतु चूढ लाभ/(हानि) (कर, अर्थाभारण जीरा-अध्या असामान्य मधी से पूर्व) कर से पूर्व अवधि हेतु चूढ लाभ-(हानि) (असाधारण और/अध्या असामान्य मधी के बाह्) कर के बाद अर्थाध हैतु बुढ़ लाभ-(हानि) (असाधारण और/अध्या असामान्य मधी के बाद) 233.86 555 (1) 617.0 784-13 1.617.43 173.46 275.6 412.79 449 10 576.96 1.227.66 ुअसाध्यम् और अवर्षा जेसमान्य मर्दो के बाद) अवर्षि हेतु कुल क्याप्य आप (अवर्षि हेतु काय (हारि) शामिल करते हुए (कर के बाद) होत्र अन्य व्यापक आप (कर के बाद) भूगतान किया नमा इकिस्टो होस्य कैपिटल पुगानन किया नमा इकिस्टो होस्य कैपिटल 175.62 376.39 1.164.22 262.86 438.28

4.21

प्रणियां : उर्जन की मनेका ऑड्डर कमेटी द्वारा कर तो पर्ड और 12 नकार 2025 को आवेतित उनकी संपर्धाया के उनके में उनके के निदेशक मंद्रत हारा अन्योगित किए पर्ट मेंची (लिटिंग) ऑक्टियोमा को कीला असारककारों) निपाल 3015 के निवान 33 के तता तरीक एक्सप्रेयत के प्रमार किये गये नैमाहिक वित्तीय परिणाम के दिवार प्रमार के प्रणान कर परिणाण के हैं ग्रीमिक्ट विदेशा परिणाली का प्रणान करेंद्रत पर्यापति के प्रमान के प्रणान के स्थान के स्थान के प्रणान के स्थान के प्रणान के प्रणान के स्थान के प्रणान के प्रमान के प्रणान के प्रणान के प्रणान के प्रमान के प्रणान के प्र

1.69

अर्जन प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) (गिरंतर और अनिरंतर प्रचालनों हेतु) (अस्माधारण मदों से पूर्व) (रु. में) वैक्षिक

रीकड़ों उत्पाद ... एक कैन !

2.53

11.19

अलंकित लिमिटेड

30.09.2025 को समाप्त द्वितीय तिमाही हेतु स्टैंडअलोन और समेकित अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार (इंपोप्स की बोडका रू. लाखों में) स्टेंडअलीन 30.09.2025 30.08.2024 30,09,2924 30.09.2025 30.09.2024 31.03.2025 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 प्रभावनी से कृत आब अवर्धि की पृक्ष लावः (हति) (का. अवाधारण मार्थे से पूर्व) अर वे पर्द अवर्धि के पुत्र (लावः) (क्रि.) (अकाधारण मार्थे के धान्) कर के बाद अवर्धि के पुत्र (लावः) (हाति) आवों के तुक्र तालावः अवर (अवर्धि के तुक्ति लावः) (हर्ति) अवर्धि के तुक्र तालावः अवर (अवर्धि के तु निर्दात लावः) (हर्ति) (कर के बंदि) और अन्य ज्याक्त आवं (कर के पाद) विकासी अवर्ध के स्थान करतात. वर्ती लेखा वर्षे को बैलेंस फ्रीट के अनुरूप पुनर्गुल्पोकन रिज 26,960.35 29,060,16 (कर.) इति श्रीवर (क. 1/= प्रत्येक के.) (यापीकृत नहीं)

करों अलेकित लिमिटेड

हथियार तस्कर से १४ पिस्टल, ४ मैगजीन और ५६ कारतस बरामट

56 किरमूस बरामद वर्ष विद्या वर्ष विद्यार्थ वरामी आहम वाच वे दिवारी वर्ष विद्यार्थ वरानी आहम वाच वे दिवारी प्रवासी आहम के किरमा करने वाले एक उपणवर को करने वाले एक उपणवर को करना के उस के दिल्ली-एकसीआर व उत्तर प्रदेश में अपराधियों को सप्लाई करता था। वह पिछले ४-५ गाह से इन्हें धंधे में शामिल था आरोपी ने बताया कि वह पहले एक प्राइवेट कंपनी में कम करता था। आर्थिक तंनी और नलत संनत के चलते उसने हथियारों की तरकरी शुरू की थी।

टोयोटा कारों की बुकिंग के नाम पर लाखों की दगी